



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च 2014—चैत्र 7, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2014

क्र. ई-5-612-आयएस-लीव-5-एक.—श्री मनु श्रीवास्तव,
आयएस., प्रबंध संचालक, एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जनवरी 2014 द्वारा
दिनांक 17 से 24 फरवरी 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश
दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने
की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया
जाता है।

क्र. ई-5-872-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रियंका
दास, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी
को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 16
दिसम्बर 2013 से दिनांक 2 जनवरी 2014 तक, अठारह दिन का
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते
हुए, अब उन्हें दिनांक 16 से 17 दिसम्बर 2013 तक, दो दिन एवं
दिनांक 20 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक, चौदह दिन का
संशोधित / पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया
जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर
2013 के अनुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोसले, अवर सचिव “कार्मिक”।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2014

फा. क्र. 3(ए)7-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से उनके द्वारा कार्यभार सौंपने के दिनांक से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपता है :—

1. श्री अनिल कुमार वर्मा, सचिव
2. श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, सचिव
3. श्री श्याम सुन्दर गर्ग, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय सिंह, प्रमुख सचिव.

शुद्धि पत्र

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2014

फा. क्र. 3(बी)1-2010-इक्कीस-ब(एक)-(मेरिट क्र. 05).—इस विभाग की समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मार्च 2011 के द्वितीय पैरा में अंकित शब्द “ई. सिंघभूम (झारखण्ड)” के स्थान पर “रांची (झारखण्ड)” पढ़ा जाए.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2014

फा. क्र. 17(ई)1652-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की सेवाएं कार्यभार सौंपने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2014

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को एतद्द्वारा, निम्नानुसार कुटुम्ब न्यायालयों

में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायाधीश का नाम एवं पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री प्रेमचन्द्र शर्मा, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./ एस.टी. (पी.ए.) एक्ट, बालाघाट.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट.
2.	श्री इकबाल अहमद, पीठासीन अधिकारी, म.प्र. राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल.
3.	श्री ओम प्रकाश सुनरिया, द्वितीय अति. जिला न्यायाधीश, भिण्ड.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड.
4.	श्री अरुण कुमार शर्मा, तेरहवें अति. जिला न्यायाधीश, इन्दौर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर.
5.	श्री श्याम कांत कुलकर्णी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, छिन्दवाड़ा.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा.
6.	श्री श्याम सुन्दर गर्ग, अति. सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास.
7.	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (कनि.), विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पी.ए.), एक्ट, झाबुआ.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धार.
8.	श्री अमर नाथ (केशरवानी), विशेष न्यायाधीश, एस.सी./ एस.टी. (पी.ए.), एक्ट, शहडोल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना.
9.	श्री शिवमंगल सिंह, विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
10. श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./ एस.टी. (पी.ए.), एक्ट, नरसिंहपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला.		18. श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी.		अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन श्री मो. शमीम के स्थान पर.
11. श्री धीमन नारायण शुक्ला, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम.		19. श्री अनिल कुमार वर्मा, सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल.		प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी के स्थान पर.
12. श्री मृत्युंजय सिंह, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./ एस.टी. (पी.ए.), एक्ट, सतना.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना.		उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.		
13. श्री राकेश कुमार सिंह (वरि.), अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, इन्दौर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी.		फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत निम्न सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एतद्वारा, निम्नानुसार कुटुम्ब न्यायालयों में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—		
14. श्री रमेश कुमार सोनी, तृतीय अति. जिला न्यायाधीश, इंदौर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा.		क्र. न्यायिक सदस्य का नाम	कुटुम्ब न्यायालय का नाम	
15. श्री महेश भदकारिया, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मुरैना.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना.		(1)	(2)	(3)
16. श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली.		1. कु. प्रतिभा रत्नपारखी (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश).	कुटुम्ब न्यायालय, नीमच	
17. श्री रामप्रकाश वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर.	प्रथम अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर श्री एच. एन. वाजपेयी के स्थान पर.		2. श्री उल्हास बापट (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश).	कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर	
			उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.		
			मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के वर्मा, सचिव.		

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2014

क्र. 1589-494-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा
जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो
दिनांक 10 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र-तृतीय अनुसूचित जाति तथा
आदिवासी विकास (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी,

में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया
जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

- | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|
| 1 | श्री आशीष कुमार शर्मा | सहायक संचालक |
| जबलपुर संभाग | | |
| 2 | श्रीमती बबीता इन्दु मिश्रा | सहायक संचालक |

क्र. 1591-480-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 08 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र-स्वीच गैयर तथा संरक्षक (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

शहडोल संभाग

1	श्री कृष्ण चंद्र द्विवेदी	उपयंत्री
---	---------------------------	----------

होशंगाबाद संभाग

2	श्री लखनेश कुमार विश्वकर्मा	सहायक यंत्री
---	-----------------------------	--------------

जबलपुर संभाग

3	श्री सनेश धुर्वे	उपयंत्री
4	कु. अनी शर्मा	उपयंत्री
5	श्री ए. एस. हाडे	सहायक यंत्री

रीवा संभाग

6	सुश्री प्रतिज्ञा मिश्रा	उपयंत्री
7	श्री विजय कुमार गुप्ता	उपयंत्री

भोपाल संभाग

8	श्री सचिन बैरागी	उपयंत्री
---	------------------	----------

उज्जैन संभाग

9	सुश्री सुमी मोदी	उपयंत्री
10	श्री गिरीश कुमार माथनकर	उपयंत्री
11	श्री लक्ष्मी नारायण मानमोडे	उपयंत्री
12	श्री एहसान उल्ला खॉ	सहायक यंत्री
13	श्री देवी सिंह डावर	उपयंत्री
14	श्री मुकेश मेहता	उपयंत्री

सागर संभाग

15	श्री किशोर कुमार बन्सोड़	सहायक यंत्री
----	--------------------------	--------------

क्र. 1593-192-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा-चतुर्थ विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

ग्वालियर संभाग

1	श्री ओम प्रकाश सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी
---	---------------------	----------------------------

सागर संभाग

2	श्री रिकंल घनघोरिया	बाल विकास परियोजना अधिकारी
---	---------------------	----------------------------

इंदौर संभाग

3	कु. रेखा रघुवंशी	बाल विकास परियोजना अधिकारी
---	------------------	----------------------------

उज्जैन संभाग

4	कु. कीर्ति नागर	बाल विकास परियोजना अधिकारी
---	-----------------	----------------------------

क्र. 1595-171-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 09 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

ग्वालियर संभाग

1	श्री ओम प्रकाश सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी
---	---------------------	----------------------------

इंदौर संभाग

2	कु. रेखा रघुवंशी	बाल विकास परियोजना अधिकारी
---	------------------	----------------------------

उज्जैन संभाग

3	कु. कीर्ति नागर	बाल विकास परियोजना अधिकारी
---	-----------------	----------------------------

निम्नस्तर

सागर संभाग

1	श्री रिकंल घनघोरिया	बाल विकास परियोजना अधिकारी
---	---------------------	----------------------------

क्र. 1597-167-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 08 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र-विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंशूलेशन को ऑर्डिनेशन व हजाडर्स एरिया-बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)
-------------	--------------------	--------------

इन्दौर संभाग

1	श्री सुरेन्द्र नाथ खरे	उपयंत्री
---	------------------------	----------

रीवा संभाग

2	सुश्री प्रतिज्ञा मिश्रा	उपयंत्री
3	श्री नवीन कुमार त्रिपाठी	उपयंत्री
4	श्री अवधेश कुमार गुप्ता	उपयंत्री

उज्जैन संभाग

5	श्री देवी सिंह डावर	उपयंत्री
---	---------------------	----------

ग्वालियर संभाग

6	श्री सतेन्द्र सिंह भदौरिया	सहायक यंत्री
7	श्री राज कुमार चौरसिया	उपयंत्री
8	श्री आर. एस. बैस	उपयंत्री

क्र. 1599-493-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 08 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)
-------------	--------------------	--------------

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	कु. सपना खर्ते	सहायक संचालक (सश्रेय)
---	----------------	-----------------------

क्र. 1601-171-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 09 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)
-------------	--------------------	--------------

उच्चस्तर

सागर संभाग

1	श्री रिकंल घनघोरिया	बाल विकास परियोजना अधिकारी
---	---------------------	----------------------------

क्र. 1607-425-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 06 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)
-------------	--------------------	--------------

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1	श्री नरेन्द्र प्रसाद अवस्थी	आबकारी उप निरीक्षक
2	श्री अमित वर्मा	आबकारी उप निरीक्षक
3	श्री अभिषेक सिंह	आबकारी उप निरीक्षक
4	श्री अरविन्द रोस्ता	आबकारी उप निरीक्षक
5	श्री परमानंद कोरचे	सहायक जिला आबकारी अधिकारी.
6	श्री मंशाराम उइके	सहायक जिला आबकारी अधिकारी.

भोपाल संभाग

7	श्री ओम प्रकाश जामोद	सहायक जिला आबकारी अधिकारी.
8	श्रीमती बबीता भट्ट मिश्र	आबकारी उप निरीक्षक
9	श्रीमती प्रीति चौबे	आबकारी उप निरीक्षक
10	श्री रविशंकर तिवारी	आबकारी उप निरीक्षक
11	श्री रीतेश कुमार लाल	सहायक जिला आबकारी अधिकारी.

निम्नस्तर

जबलपुर संभाग

1	श्री विजय बहादुर सिंह बघेल	आबकारी उप निरीक्षक
2	श्री सतीश	आबकारी उप निरीक्षक

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2014

क्र. 1904-490-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)
-------------	--------------------	--------------

उच्चस्तर

ग्वालियर संभाग

1	श्रीमती नीलम मौर्य	नायब तहसीलदार
---	--------------------	---------------

होशंगाबाद संभाग

2	श्री संदीप गौर	पटवारी
3	श्री भूपेन्द्र सिंह परस्ते	नायब तहसीलदार

भोपाल संभाग

4	श्री शिवदत्त कटारे	नायब तहसीलदार
5	श्री मड़िया सिंह चौहान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
6	श्री सुनील शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
7	श्री तनवीर हलीम	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
8	श्री लखन लाल लोधी	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

9	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्रा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
10	श्री नागेश्वर प्रसाद पनिका	नायब तहसीलदार
11	श्रीमती चित्रा पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
12	श्री उमाकान्त शर्मा	राजस्व निरीक्षक
13	श्री सत्यसागर पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

14	कु. प्रियंका टेगौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
15	श्री लवनीत कोरी	नायब तहसीलदार
16	श्री मूलचंद जुनवाल	राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

17	श्री रंजीत सिंह ताराम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
----	-----------------------	-------------------------

(1)

(2)

(3)

18	श्रीमती प्रतिष्ठा जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
19	कु. मीनाक्षी जायसवाल	नायब तहसीलदार
20	श्री निर्भय सिंह राजपूत	नायब तहसीलदार
21	श्री रविन्द्र कुमार सूर्यवंशी	राजस्व निरीक्षक
22	श्री विनय मूर्ति शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
23	श्री आशीष कुमार रूसिया	राजस्व निरीक्षक
24	श्री नीरज कुमार कलशिया	राजस्व निरीक्षक
25	श्री रामनाथ प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
26	श्री राजीव कुमार शुक्ल	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
27	श्री शिवराज सिंह सौर	राजस्व निरीक्षक
28	श्री शिवनाथ प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक

इंदौर संभाग

29	श्री अन्तर सिंह कनेश	नायब तहसीलदार
30	डॉ. मुन्ना अड़	नायब तहसीलदार
31	श्री जीवनलाल मोधी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
32	श्री मनोज कुमार शुक्ल	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

33	श्री माधव प्रसाद मोगरें	राजस्व निरीक्षक
----	-------------------------	-----------------

जबलपुर संभाग

34	कु. अभिनंदना शर्मा	नायब तहसीलदार
35	श्री नीरज तखरया	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
36	श्री अरविन्द कुमार यादव	नायब तहसीलदार
37	कु. सुमनलता मरावी	नायब तहसीलदार
38	श्री राजेन्द्र कुमार सोनवानी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
39	श्री लालमणि सतनामी	राजस्व निरीक्षक
40	श्री कमलेश कुमार सतनामी	राजस्व निरीक्षक
41	श्री हरवंश ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
42	श्री रमेश प्रसाद कोष्ठी	राजस्व निरीक्षक
43	श्री महेश कुमार वट्टी	राजस्व निरीक्षक
44	श्री महेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
45	श्री मुकुल तिवारी	राजस्व निरीक्षक
46	श्री मनोज कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

ग्वालियर संभाग

1	श्री रविकान्त उके	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
---	-------------------	-------------------------

(1)	(2)	(3)
2	श्री राकेश कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
3	श्री अरविन्द कुमार जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
4	श्री सुघर सिंह प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
5	श्रीमती शबाना कुरैशी	राजस्व निरीक्षक
6	श्री राकेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
7	श्री रविनंदन तिवारी	राजस्व निरीक्षक

होशंगाबाद संभाग

8	श्री श्याम सिंह उइके	राजस्व निरीक्षक
9	श्री राजकुमार मालवीय	राजस्व निरीक्षक
10	श्री फत्या मानकर	राजस्व निरीक्षक
11	श्री भीमराव पोटफोडे	राजस्व निरीक्षक
12	श्री मोकलसिंह उइके	राजस्व निरीक्षक
13	श्री कन्हैया लाल व्यास	पटवारी

भोपाल संभाग

14	श्री शैलेश सिंह	राजस्व निरीक्षक
15	श्री राकेश सिंह	राजस्व निरीक्षक
16	श्री अशोक सिंह	राजस्व निरीक्षक
17	श्री कमलेश मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
18	श्री भंवर लाल पुरविया	राजस्व निरीक्षक
19	श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

20	श्री लवकुश प्रसाद शुक्ला	नायब तहसीलदार
21	श्री रवि कुमार श्रीवास्तव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
22	श्री अकलेश मालवीय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
23	श्री वीरेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
24	श्री हंसराज सिंह	राजस्व निरीक्षक
25	श्री बबलेश कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
26	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
27	श्री देवकरन सिंह	राजस्व निरीक्षक
28	श्री राजेन्द्र कुमार बंशल	राजस्व निरीक्षक
29	श्री कमलेश सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
30	श्री चन्द्र प्रकाश त्रिवेदी	राजस्व निरीक्षक
31	श्री राजेश कुमार शुक्ल	राजस्व निरीक्षक
32	श्री ददन सिंह	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
33	श्री बंशराखन सिंह	राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग		
34	श्री मो. शादाब कुरेशी	पटवारी
35	श्री शम्भू सिंह सिसोदिया	नायब तहसीलदार
36	श्री प्रभूलाल वर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
37	श्री दरियाव सिंह भुरा	राजस्व निरीक्षक
38	श्री लालचंद शैरपुरिया	राजस्व निरीक्षक
39	श्री राजा राम रानडे	राजस्व निरीक्षक
40	श्री गिरीश कुमार सूर्यवंशी	पटवारी
41	श्री आसिफ हुसैन	पटवारी

सागर संभाग

42	श्री जगदीश प्रसाद तिवारी	राजस्व निरीक्षक
43	श्रीमती नीरू जैन	राजस्व निरीक्षक
44	श्री प्रीतम सिंह	राजस्व निरीक्षक
45	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
46	श्री लक्ष्मी नारायण ताम्रकार	राजस्व निरीक्षक
47	श्री बृजकिशोर पाठक	राजस्व निरीक्षक
48	श्री हरगोविन्द प्रसाद धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
49	श्री सावधान अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
50	श्री बृजेश कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
51	श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
52	श्री गणेश प्रसाद पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
53	श्री सुशील कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
54	श्री शशिकान्त दुबे	राजस्व निरीक्षक
55	श्री शरद कुमार भट्ट	राजस्व निरीक्षक
56	श्री राम सुजान कोल	राजस्व निरीक्षक
57	श्री राम राज गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
58	श्री अभय सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
59	श्री राम अनन्दे सिंह	राजस्व निरीक्षक
60	श्री जगन्नाथ प्रसाद विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक
61	श्रीमती आरती राणा	पटवारी

इंदौर संभाग

62	कु. नीलिमा राजलवाल	नायब तहसीलदार
63	श्री मुकेश बामनिया	नायब तहसीलदार
64	श्री गोविन्द सिंह ठाकुर	नायब तहसीलदार
65	श्रीमती पूनम तोमर	नायब तहसीलदार

(1)	(2)	(3)
66	श्री आनंद मोहन श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
67	श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
68	श्री शंकर डावर	राजस्व निरीक्षक
69	श्री राहुल गायकवाड़	राजस्व निरीक्षक
70	श्री महेश कुमार साँकले	राजस्व निरीक्षक
71	श्री वेद कुमार पंड्या	राजस्व निरीक्षक
72	श्री योगेन्द्र सिंह राठौर	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

73	श्री श्यामलाल सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
74	श्री शिवकान्त दीक्षित	राजस्व निरीक्षक
75	श्री विनोद कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
76	श्री राजेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
77	श्री वेद प्रकाश सिंह	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

78	श्री दिलीप सिंह	नायब तहसीलदार
79	श्री हेमराज झारिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
80	श्री श्यामा चरण चौबे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
81	श्री राकेश कुमार खम्परिया	राजस्व निरीक्षक
82	श्री अनिल कुमार पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
83	श्री वीरेन्द्र कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
84	श्री संजय जाट	राजस्व निरीक्षक
85	श्री रिपूदमन सिंग	राजस्व निरीक्षक
86	श्री बलजीत रावत	राजस्व निरीक्षक
87	श्री अनिल सिंह	राजस्व निरीक्षक
88	श्री कैलाश प्रसाद उइके	राजस्व निरीक्षक
89	श्री मणिराज सिंह	राजस्व निरीक्षक
90	श्री धनेश्वर प्रसाद श्रीवास	राजस्व निरीक्षक
91	श्री विश्वास भंडारी	राजस्व निरीक्षक
92	श्री कैलाश प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक
93	श्री चन्दन सिंह लोधी	राजस्व निरीक्षक
94	श्री दिनेश यादव	राजस्व निरीक्षक

के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 08 जनवरी, 2014 को प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-तृतीय (राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**होशंगाबाद संभाग**

1	श्री एम. एस. गहलोद	नायब तहसीलदार
2	श्री फत्या मानकर	राजस्व निरीक्षक
3	श्री भरत अहिरवार	पटवारी
4	श्री संदीप गौर	पटवारी

ग्वालियर संभाग

5	श्री रामदीन सिंह सेमिल	नायब तहसीलदार
6	श्री राकेश कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
7	श्री प्रतापसिंह पटेलिया	राजस्व निरीक्षक
8	श्री योगेन्द्र त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक
9	श्री आनन्द कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)

भोपाल संभाग

10	श्री शिवदत्त कटारे	नायब तहसीलदार
11	श्री मडिया सिंह चौहान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
12	श्री सुनील शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
13	श्री प्रयाग सिंह	राजस्व निरीक्षक
14	श्री अशोक सिंह	राजस्व निरीक्षक
15	श्री आश नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

16	श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल	नायब तहसीलदार
17	श्री आशीष अग्रवाल	नायब तहसीलदार
18	श्री उमाकान्त शर्मा	राजस्व निरीक्षक
19	श्री ललन सिंह	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)

इन्दौर संभाग

20	श्री आनंद मोहन श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
21	श्री मुकेश बामनिया	नायब तहसीलदार
22	श्री गोविन्द सिंह ठाकुर	नायब तहसीलदार
23	श्रीमती पूनम तोमर	नायब तहसीलदार
24	डॉ. मुन्ना अड़	नायब तहसीलदार (सश्रेय)

क्र. 1906-437-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों

(1)	(2)	(3)
25	श्री अन्तर सिंह कनेश	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
26	श्री इन्द्रभान सिंह चौहान	नायब तहसीलदार
27	श्री जीवनलाल मोघी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
28	कु. नीलिमा राजलवाल	नायब तहसीलदार
29	श्री शंकर डावर	राजस्व निरीक्षक
30	श्री राहुल गायकवाड़	राजस्व निरीक्षक
31	श्री मनोज कुमार शुक्ल	राजस्व निरीक्षक
32	श्री महेश कुमार साँकले	राजस्व निरीक्षक
33	श्री योगेन्द्र सिंह राठौड़	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

34	श्रीमती रेखा सचदेव	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
----	--------------------	------------------------

सागर संभाग

35	श्री रोशन राय	डिप्टी कलेक्टर
36	श्री विनय मूर्ति शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
37	श्री शशिकान्त दुबे	राजस्व निरीक्षक
38	श्री शरद कुमार भट्ट	राजस्व निरीक्षक
39	श्री शिवनाथ प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
40	श्री राजीव कुमार शुक्ल	राजस्व निरीक्षक
41	श्री महेश दुबे	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

42	श्री नीलाम्बर मिश्र	डिप्टी कलेक्टर
----	---------------------	----------------

जबलपुर संभाग

43	श्री राजेन्द्र कुमार सोनवानी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
44	श्री वीरेन्द्र कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
45	श्री लालमणि सतनामी	राजस्व निरीक्षक
46	श्री देवशरण सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक
47	श्री हरवंश ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
48	श्री अनिल सिंह	राजस्व निरीक्षक
49	श्री महेश कुमार वट्टी	राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर**ग्वालियर संभाग**

1	श्री जनकसिंह अपोरिया	नायब तहसीलदार
2	श्री अरविन्द कुमार जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
3	श्री लाल बहादुर शर्मा	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
4	श्री ब्रजेश कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक
5	श्री कैलाश नारायण साहू	राजस्व निरीक्षक
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद कनेरिया	राजस्व निरीक्षक
7	श्री नाथूराम साखवार	राजस्व निरीक्षक
8	श्री बनवारी लाल डोंगर	राजस्व निरीक्षक

होशंगाबाद संभाग

9	श्री मोकल सिंह उइके	राजस्व निरीक्षक
10	श्री भीमराव पोटफोड़े	राजस्व निरीक्षक
11	श्री अशोक राठौर	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

12	श्री तनवीर हलीम	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
13	श्री सिरमोर सिंह धाकड़	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
14	श्री शैलेश सिंह	राजस्व निरीक्षक
15	श्री राकेश सिंह	राजस्व निरीक्षक
16	श्री लखन लाल लोधी	राजस्व निरीक्षक
17	श्री सत्य प्रकाश शर्मा	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

18	श्री लवकुश प्रसाद शुक्ला	नायब तहसीलदार
19	श्री रवि कुमार श्रीवास्तव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
20	श्री अकलेश मालवीय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
21	श्री कमलेश सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
22	श्री हंसराज सिंह	राजस्व निरीक्षक
23	श्री बबलेश कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
24	श्रीमती चित्रा पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
25	श्री वीरेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
26	श्री पन्ना लाल रावत	राजस्व निरीक्षक
27	श्री ब्रजेश चन्द्र जायसवाल	राजस्व निरीक्षक
28	श्री रमेश चन्द वर्मा	राजस्व निरीक्षक
29	श्री चन्द्र प्रकाश त्रिवेदी	राजस्व निरीक्षक
30	श्री राजेश कुमार शुक्ल	राजस्व निरीक्षक
31	श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
32	श्री सुदामा प्रसाद कोरी	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

33	श्री वेद कुमार पंड्या	राजस्व निरीक्षक
34	श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
उज्जैन संभाग		
35	श्री लवनीत कोरी	नायब तहसीलदार
36	श्री दरियाव सिंह भुरा	राजस्व निरीक्षक
37	श्री मोहन लाल गोयल	राजस्व निरीक्षक
38	श्री जगत सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
39	श्री कमल प्रसाद मेहरा	राजस्व निरीक्षक
40	श्री गिरीश कुमार सूर्यवंशी	पटवारी

सागर संभाग		
41	श्री जाहर सिंह ठाकुर	नायब तहसीलदार
42	श्री रविन्द्र कुमार सूर्यवंशी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
43	श्री प्रदीप कुमार खरे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
44	श्री सुशील कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
45	श्री बृजेश कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
46	श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
47	श्रीमती नीरू जैन	राजस्व निरीक्षक
48	श्री भरत पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
49	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
50	श्री प्रीतम सिंह	राजस्व निरीक्षक
51	श्री आशीष कुमार रूसिया	राजस्व निरीक्षक
52	श्री जगदीश प्रसाद तिवारी	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग		
53	श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
54	श्री परमसुख वंशल	राजस्व निरीक्षक
55	श्री उमेश्वर साय पैकरा	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग		
56	श्री नीरज तखरया	नायब तहसीलदार
57	श्री अरविन्द कुमार यादव	नायब तहसीलदार
58	श्री दिलीप सिंह	नायब तहसीलदार
59	श्री राकेश कुमार खम्परिया	राजस्व निरीक्षक
60	श्री अनिल कुमार पान्डे	राजस्व निरीक्षक
61	श्री गिरीश धुलेकर	राजस्व निरीक्षक
62	श्री संजय जाट	राजस्व निरीक्षक
63	श्री सुशील कुमार पटैल	राजस्व निरीक्षक
64	श्री रिपूदमन सिंग	राजस्व निरीक्षक
65	श्री बलजीत रावत	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
66	श्री कमलेश कुमार सतनामी	राजस्व निरीक्षक
67	श्री आशाराम बघेल	राजस्व निरीक्षक
68	श्री राजीव कुमार नेमा	राजस्व निरीक्षक
69	श्री जुगल किशोर नेमा	राजस्व निरीक्षक
70	श्री मुन्ना लाल तिवारी	राजस्व निरीक्षक
71	श्री रमेश प्रसाद कोष्टी	राजस्व निरीक्षक
72	श्री राजेन्द्र प्रसाद खम्परिया	राजस्व निरीक्षक
73	श्री के. सी. अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
74	श्री संतोष कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
75	श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
76	श्री वीरभद्र शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
77	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
78	श्री हिम्मत सिंह भवेदी	राजस्व निरीक्षक
79	श्री महेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
80	श्री कैलाश प्रसाद उइके	राजस्व निरीक्षक
81	श्री मणिराज सिंह	राजस्व निरीक्षक
82	श्री विश्वास भंडारी	राजस्व निरीक्षक
83	श्री कैलाश प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक
84	श्री मुकुल तिवारी	राजस्व निरीक्षक
85	श्री मनीष कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
86	श्री नारायण प्रसाद कुशराम	राजस्व निरीक्षक
87	श्री चन्दन सिंह लोधी	राजस्व निरीक्षक

क्र. 1908-479-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 07 जनवरी, 2014 को प्रश्नपत्र विद्युत संस्थापनाएं (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

शहडोल संभाग

1	श्री कृष्ण चंद्र द्विवेदी	उपयंत्री
---	---------------------------	----------

ग्वालियर संभाग

2	श्री राज कुमार चौरसिया	उपयंत्री
3	श्री निशांत श्रीवास्तव	उपयंत्री

उज्जैन संभाग

4	श्री देवीसिंह डावर	उपयंत्री
---	--------------------	----------

क्र. 1910-482-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को प्रश्नपत्र-सामान्य लेखा (बिना पुस्तकों के-वन क्षेत्रपालों के लिए) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

ग्वालियर संभाग

1	श्रीमती ज्योति छाबरिया	वन क्षेत्रपाल
2	श्रीमती सरोज रोज	वन क्षेत्रपाल
3	डॉ. दीपमाला शिवहरे	वन क्षेत्रपाल

होशंगाबाद संभाग

4	कु. अनामिका कनौजिया	वन क्षेत्रपाल
5	श्री खुशाल सिंह बघेल	वन क्षेत्रपाल
6	श्री वीरभद्र सिंह परिहार	वन क्षेत्रपाल

जबलपुर संभाग

7	सुश्री कीर्ति बाला गुप्ता	वन क्षेत्रपाल
8	श्री राजकुमार अहिरवार	वन क्षेत्रपाल
9	श्री नरेन्द्र कुमार चौहान	वन क्षेत्रपाल
10	श्री रितेश कुमार उइके	वन क्षेत्रपाल
11	श्री राहुल कुमार धारू	वन क्षेत्रपाल
12	श्री जमालसिंह धार्वे	वन क्षेत्रपाल
13	कु. सीता जमरा	वन क्षेत्रपाल
14	श्री संजय साल्वे	वन क्षेत्रपाल

इन्दौर संभाग

15	श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल
16	श्री लक्सा सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
17	श्री जीतेन्द्र तोमर	वन क्षेत्रपाल

भोपाल संभाग

18	श्री सुरेश कुमार सोनवंशी	वन क्षेत्रपाल
19	श्री अनुराग तिवारी	वन क्षेत्रपाल
20	श्री अरविन्द अहिरवार	वन क्षेत्रपाल
21	सुश्री ज्योति चौकसे	वन क्षेत्रपाल

पुस्तकों के) परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

जबलपुर संभाग

1	श्री लोकेश कुमार सिन्हा	उप पुलिस अधीक्षक
2	सुश्री कमला जोशी	उप पुलिस अधीक्षक

रीवा संभाग

3	श्री आलोक शर्मा	एस.डी.ओ.पी.
---	-----------------	-------------

सागर संभाग

4	सुश्री शकुन्तला रूहल	उप पुलिस अधीक्षक
---	----------------------	------------------

भोपाल संभाग

5	श्रीमती यास्मिन जहरा	उप पुलिस अधीक्षक
6	श्री मनोहर सिंह बारिया	उप पुलिस अधीक्षक
7	श्री संतोष कुमार डेहरिया	उप पुलिस अधीक्षक
8	सुश्री नीतू विश्वकर्मा	उप पुलिस अधीक्षक
9	श्रीमती रश्मि खरया	डी.एस.पी.
10	सुश्री वन्दना चौहान	डी.एस.पी.
11	श्रीमती चंचल नागर	डी.एस.पी.
12	सुश्री हेमलता अग्रवाल	डी.एस.पी.
13	श्री देवेन्द्र कुमार यादव	डी.एस.पी.
14	सुश्री प्रियंका डुडवे	डी.एस.पी.
15	श्री आलोक कुमार शर्मा	उप पुलिस अधीक्षक
16	श्री संजीव कुमार पाठक	उप पुलिस अधीक्षक
17	कु. स्टेला सुलिया	उप पुलिस अधीक्षक
18	श्री परमाल सिंह मेहरा	उप पुलिस अधीक्षक

क्र. 1914-489-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा उर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 06 जनवरी, 2014 को प्रश्नपत्र-भू-योजन तथा विद्युत् सुरक्षा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

शहडोल संभाग

1	श्री कृष्ण चंद्र द्विवेदी	उपयंत्री
---	---------------------------	----------

क्र. 1912-496-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 09 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र-न्यायिक शाखा (बिना

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
भोपाल संभाग			6	श्रीमती ऋतु द्विवेदी चौहान	वाणिज्यिक कर अधिकारी
2	श्री सचिव बैरागी	उपयंत्री	7	सुश्री दीपमाला अहके	कराधान सहायक
3	श्री सुनील कुमार डेहरिया	उपयंत्री	8	श्री सुनील सैनी	कराधान सहायक
सागर संभाग			इंदौर संभाग		
4	श्री मुकेश मेहता	उपयंत्री	9	श्री ललित कुमार सोमानी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
<p>क्र. 1927-482-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 08 जनवरी, 2014 को प्रश्नपत्र प्रथम प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के-वन क्षेत्रपालों के लिए) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—</p>			निम्नस्तर		
क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम	भोपाल संभाग		
(1)	(2)	(3)	1	श्री कृष्ण कुमार सिंह	कराधान सहायक
ग्वालियर संभाग			2	कु. ज्योति ब्रम्हें	कराधान सहायक
1	श्रीमती सरोज रोज	वन क्षेत्रपाल	3	श्री वरूण केवलरामानी	कराधान सहायक
होशंगाबाद संभाग			जबलपुर संभाग		
2	श्री खुशाल सिंह बघेल	वन क्षेत्रपाल	4	श्री लाल विनोद प्रताप सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
जबलपुर संभाग			5	श्रीमती प्रियंका सोहगौरा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	श्री नरेन्द्र कुमार चौहान	वन क्षेत्रपाल	इंदौर संभाग		
4	श्री रितेश कुमार उड्डे	वन क्षेत्रपाल	6	श्री हरीश चौरसिया	कराधान सहायक
5	श्री ओम प्रकाश भलावी	वन क्षेत्रपाल	7	श्री कमल सिंह ठाकुर	कराधान सहायक
<p>क्र. 1941-475-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 06 जनवरी, 2014 को प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—</p>			8	श्री सुभाष सिंह	कराधान सहायक
क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम	9	श्री कल्याण सिंह यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
(1)	(2)	(3)	10	कु. रश्मि कसेरा	कराधान सहायक
उच्चस्तर			11	सुश्री शोभा चौहान	कराधान सहायक
भोपाल संभाग			उच्चस्तर		
1	कु. सायमा फातमा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	जबलपुर संभाग		
2	कु. अंजू अहिरवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	1	श्री योगीराज इडपाचे	कराधान सहायक
3	श्रीमती सुषमा शर्मा	कराधान सहायक	2	श्री सुखदेव सिंह वरकडे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	कु. रेखा बड़ोदे	कराधान सहायक	3	श्री कमल सिंह ठाकुर	कराधान सहायक
5	कु. आकांक्षा सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	4	श्री लाल विनोद प्रताप सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
			इंदौर संभाग		
			5	कु. कल्याणी सिसोदिया	कराधान सहायक

(1)	(2)	(3)	प्रथम एवं लेखा द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-		
			क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम
			(1)	(2)	(3)
ग्वालियर संभाग			उच्चस्तर		
6 कु. रश्मि कसेरा	कराधान सहायक		जबलपुर संभाग		
7 श्री दीपक मरमट	कराधान सहायक		निम्नस्तर		
			जबलपुर संभाग		
8 श्री सतेन्द्र चौरसिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी		1 श्री दिलीप सिंह		नायब तहसीलदार
			2 कु. अभिनंदना शर्मा		नायब तहसीलदार
इंदौर संभाग			3 श्री राजेन्द्र कुमार सोनवानी		सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
1 श्री शरद कुमार राय	कराधान सहायक		4 श्री लालमणि सतनामी		राजस्व निरीक्षक
2 श्री शशिमोहन सेन	कराधान सहायक		5 श्री कमलेश कुमार सतनामी		राजस्व निरीक्षक
3 श्रीमती प्रियंका सौहगोरा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक		6 श्री हरवंश ठाकुर		राजस्व निरीक्षक
4 श्री हरीश चौरसिया	कराधान सहायक		7 श्री संतोष कुमार दुबे		राजस्व निरीक्षक
5 श्री सुभाष सिंह	कराधान सहायक		8 श्री महेश कुमार वट्टी		राजस्व निरीक्षक
			9 श्री मणिराज सिंह		राजस्व निरीक्षक
6 श्री ओम प्रकाश यादव	कराधान सहायक		10 श्री हिम्मत सिंह भवेदी		राजस्व निरीक्षक
7 सुश्री नीता नायडू	वाणिज्यिक कर निरीक्षक		सागर संभाग		
8 श्रीमती सुनिता राठौर	कराधान सहायक		11 श्री रविन्द्र कुमार सूर्यवंशी		सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
9 सुश्री शोभा चौहान	कराधान सहायक		12 श्री शिवनाथ प्रसाद सोनी		राजस्व निरीक्षक
10 श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक		13 श्रीमती नीरू जैन		राजस्व निरीक्षक
11 श्री जेनुल उद्दीन शेख जिलानी	कराधान सहायक		रीवा संभाग		
12 श्री के. पी. सिंह	कराधान सहायक		14 श्री अकलेश मालवीय		सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
13 श्रीमती प्रियंका बारगल	कराधान सहायक		15 श्री बबलेश कुमार तिवारी		राजस्व निरीक्षक
14 श्री उत्तम माकोड़े	कराधान सहायक		16 श्री उमाकान्त शर्मा		राजस्व निरीक्षक
15 कु. विशा माधवानी	कराधान सहायक		17 श्री सरोज कुमार सिंह		राजस्व निरीक्षक
भोपाल संभाग			भोपाल संभाग		
16 श्रीमती ऋतु द्विवेदी चौहान	वाणिज्यिक कर अधिकारी		18 श्री भूपेन्द्र सिंह परस्ते		नायब तहसीलदार
17 श्री सुनील सैनी	सहायक कराधान		इंदौर संभाग		
18 श्री पूनम दुबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक		19 श्री अन्तरसिंह कनेश		नायब तहसीलदार
19 श्री मुकेश शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक		20 श्री गोविन्द सिंह ठाकुर		नायब तहसीलदार
20 सुश्री दीपमाला अहके	कराधान सहायक		21 श्री जीवन लाल मोघी		सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
21 सुश्री सरिता उइके	सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी.		निम्नस्तर		
22 श्रीमती किरन शाक्य	सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी.		जबलपुर संभाग		

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2014.

क्र. 1986-488-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 09 जनवरी, 2014 को प्रश्नपत्र-लेखा

1 श्री नीरज तखरया नायब तहसीलदार

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2	श्री राकेश कुमार खम्परिया	राजस्व निरीक्षक	37	श्री प्रभूलाल वर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
3	श्री अनिल कुमार पान्डे	राजस्व निरीक्षक	38	श्री मोहन लाल गोयल	राजस्व निरीक्षक
4	श्री वीरेन्द्र कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक	39	श्री दरियाव सिंह भुर्रा	राजस्व निरीक्षक
5	श्री संजय जाट	राजस्व निरीक्षक	40	श्री लालचंद शैरपुरिया	राजस्व निरीक्षक
6	श्री रमेश प्रसाद कोष्टी	राजस्व निरीक्षक	41	श्री मूलचंद जुनवाल	राजस्व निरीक्षक
7	श्री महेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक	42	श्री अजय सरावगी	राजस्व निरीक्षक
8	श्री कैलाश प्रसाद उइके	राजस्व निरीक्षक	43	श्री गिरीश कुमार सूर्यवंशी	पटवारी
9	श्री विश्वास भंडारी	राजस्व निरीक्षक	44	श्री आसिफ हुसैन	पटवारी
10	श्री कैलाश प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक	रीवा संभाग		
11	श्री दिनेश यादव	राजस्व निरीक्षक			
12	श्री मुकुल तिवारी	राजस्व निरीक्षक	45	श्री लवकुश प्रसाद शुक्ला	नायब तहसीलदार
13	श्री मनोज कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक	46	श्री रवि कुमार श्रीवास्तव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
14	श्री चन्दन सिंह लोधी	राजस्व निरीक्षक	47	श्री सुखदेव सिंह भवेदी	राजस्व निरीक्षक
शहडोल संभाग			48	श्री बैद्यनाथ प्रसाद पाठक	राजस्व निरीक्षक
15	श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	49	श्री हंसराज सिंह	राजस्व निरीक्षक
16	श्री परमसुख वंशल	राजस्व निरीक्षक	50	श्रीमती चित्रा पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
17	श्री श्याम लाल सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	51	श्री पन्नालाल रावत	राजस्व निरीक्षक
18	श्री शिवकान्त दीक्षित	राजस्व निरीक्षक	52	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
सागर संभाग			53	श्री वीरेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
19	श्री जाहर सिंह ठाकुर	नायब तहसीलदार	54	श्री रोशन लाल कोल	राजस्व निरीक्षक
20	श्री निर्भय सिंह राजपूत	नायब तहसीलदार	55	श्री नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक
21	श्री विनय मूर्ति शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	56	श्री सत्यसागर पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
22	श्री प्रदीप कुमार खरे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	57	श्री राजेन्द्र कुमार बंशल	राजस्व निरीक्षक
23	श्री शशिकान्त दुबे	राजस्व निरीक्षक	58	श्री कमलेश सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
24	श्री सुशील कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक	59	श्री देवकरन सिंह	राजस्व निरीक्षक
25	श्री शरद कुमार भट्ट	राजस्व निरीक्षक	भोपाल संभाग		
26	श्री गणेश प्रसाद पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	60	श्री शिवदत्त कटारे	नायब तहसीलदार
27	श्री महेश दुबे	राजस्व निरीक्षक	61	श्री मडियासिंह चौहान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
28	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक	62	श्री तनवीर हलीम	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
29	श्री राजीव कुमार शुक्ल	राजस्व निरीक्षक	63	श्री सुनील शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
30	श्री जय प्रकाश शुक्ला	राजस्व निरीक्षक	64	श्री शैलेश सिंह	राजस्व निरीक्षक
31	श्री बृजकिशोर पाठक	राजस्व निरीक्षक	65	श्री अशोक सिंह	राजस्व निरीक्षक
32	श्री प्यारेलाल विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक	66	श्री लखनलाल लोधी	राजस्व निरीक्षक
33	श्री महाराज सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक	होशंगाबाद संभाग		
34	श्री शेषमणि शर्मा	राजस्व निरीक्षक	67	श्री मोकल सिंह उइके	राजस्व निरीक्षक
35	श्रीमती आरती राणा	पटवारी	68	श्री श्यामसिंह उइके	राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग			69	श्री संदीप गौर	पटवारी
36	श्री लवनीत कोरी	नायब तहसीलदार			

(1) (2) (3)

इंदौर संभाग

70	श्री पूनम तोमर	नायब तहसीलदार
71	श्री आनंद मोहन श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
72	डॉ. मुन्ना अड़	नायब तहसीलदार
73	श्री विक्टर रोड्रिग्स	राजस्व निरीक्षक
74	श्री चन्द्र शेखर जोशी	राजस्व निरीक्षक
75	श्री शंकर डावर	राजस्व निरीक्षक
76	श्री राहुल गायकवाड़	राजस्व निरीक्षक
77	श्री अनिल मेहता	राजस्व निरीक्षक
78	श्री शेखर बापट	राजस्व निरीक्षक
79	श्री मनोज कुमार शुक्ल	राजस्व निरीक्षक
80	श्री राजेश जोशी	राजस्व निरीक्षक
81	श्री योगेन्द्र राठौर	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

82	श्रीमती नीलम मौर्य	नायब तहसीलदार
83	श्री राकेश कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
84	श्री अरविन्द कुमार जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
85	श्री बृजेश कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक
86	श्री बनवारी लाल डोंगर	राजस्व निरीक्षक
87	श्रीमती शबाना कुरैशी	राजस्व निरीक्षक
88	श्री रविनंदन तिवारी	राजस्व निरीक्षक

क्र. 1988-173-अका-विपप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को प्रश्नपत्र-व्यवहारिक-5 (आदेश लिखने के संबंध में-पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

इंदौर संभाग

1	श्री संजय सिंह आर्य	सहायक आयुक्त
---	---------------------	--------------

निम्नस्तर

ग्वालियर संभाग

1	श्री दिनेश कुमार चौरसिया	सहायक आयुक्त
---	--------------------------	--------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्र. रा.शि.के.-पा.पु.-2014-247.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9 दिनांक 23 दिसम्बर 2013 के माध्यम से प्रदेश में समस्त निगम/मण्डलों/प्राधिकरणों/समितियों/परिषदों आदि में राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्यों के किये गये मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किये गये हैं.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 46-2-2008-20-3 दिनांक 3 नवम्बर 2011 द्वारा गठित पाठ्यपुस्तक स्थाई समिति में मनोनीत अशासकीय सदस्यों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

रश्मि अरुण शर्मा, आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. एस.सी.-2-06-2011.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एम 3-2-1999-1-4 भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, मदन कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना वर्ष 2014 में जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	18-03-2014	मंगलवार	होली भाई दूज
2	11-08-2014	सोमवार	भुजरिया मेला, (रक्षाबंधन का दूसरा दिन)
3	24-10-2014	शुक्रवार	गोवर्धन पूजा

यह आदेश बैंक एवं कोषालयों पर प्रभावशील नहीं होगा.

मदन कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 28 फरवरी 2014

क्र. 1934-भू.अ.अ.-2013-14-प्र. क्र. अ-82-वर्ष-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	निवाई माफी	08 मकान	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह.	पिपरिया जलाशय निर्माण में आने वाले मकानों का भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पिपरिया जलाशय निर्माण में जाने वाले मकानों का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 3 मार्च 2014

प्र. क्र. 02-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	वीरसागर	6.999	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	मड़वाघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु अतिरिक्त प्रकरण (पूरक प्रस्ताव).

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—मड़वाघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव ग्राम वीरसागर की भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 16 मार्च 2014

प्र. क्र. 01-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	कुंवरपुरा	16.950	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवाड़ी.	कवाघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु अतिरिक्त प्रकरण (पूरक प्रस्ताव).

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—कवाघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव ग्राम कुंवरपुरा की भूमि का अर्जन हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 14 मार्च 2014

क्र. 1070-भू-अर्जन-2014-प्र. क्र. 5-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11(1) की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 (1) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	सैलाना	सर्वे नं. 1053 1051/1 1047/4 1047/2 1047/3 1045/3 1046 1057	रकबा '0.55 0.010 0.230 0.200 0.180 0.430 0.340 0.090	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन, संभाग उज्जैन.
					बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत रतलाम-सैलाना- बांसवाडा मार्ग (मार्ग क्र. 39) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम सैलाना में बायपास हेतु भू-अर्जन बाबत.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1039/1/1	0.360	
			1039/2/4	0.070	
			1039/2/3क	0.080	
			1039/2/3ख	0.280	
			1039/1/2	0.070	
			1104	0.100	
			297	0.060	
			350	0.050	
			298/1	0.410	
			352/2	0.010	
			298/2	0.250	
			382/3	0.060	
			382/1	0.080	
			302	0.140	
			301/1/1	0.220	
			301/1/2	0.170	
			301/2/1	0.240	
			301/2/2	0.160	
			359/1/1	0.030	
			360/1	0.010	
			360/1/2	0.180	
			354/1	0.250	
			354/2	0.220	
			354/3/1	0.060	
			354/3/2	0.060	
			407	0.070	
			409	0.120	
			412/1/1	0.400	
			412/1/2	0.080	
			474/1	0.420	
			476/1	0.070	
			464/1	0.280	
			463	0.540	
			558/1	0.100	
			561	0.400	
			568/5	0.060	
			568/1	0.050	
			568/4	0.130	
			567/1/1	0.100	
			567/2	0.060	
			567/3	0.040	
			570	0.200	
			655/2/4	0.020	
			655/2/2	0.260	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			655/2/1/2	0.060	
			650	0.020	
			651/2/1	0.350	
			651/2/2	0.200	
			648/1/1	0.230	
			648/1/4/2	0.020	
			648/1/2	0.200	
			648/5	0.250	
			648/1/4	0.200	
			653/1	0.550	
			653/2	0.100	
			352/3/3/1	0.070	
			352/3/3/3	0.010	
			352/3/3/2	0.030	
			1057	0.090	
			1087/5/2/4	0.250	
			1087/5/2/5	0.100	
			1087/5/3	0.400	
			1087/5/2/1	0.400	
			1087/5/7	0.250	
			1087/5/8	0.250	
			1087/3ख	0.250	
			1004	0.070	
			योग . .	13.400	

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1072-भू-अर्जन-2014-प्र. क्र. 4-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11(1) की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 (1) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	सरवन	सर्वे नं.	संभागीय प्रबंधक, म. प्र.	बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी)
			35	सड़क विकास निगम, उज्जैन	योजनांतर्गत रतलाम-सैलाना-
			36	संभाग, उज्जैन.	बांसवाड़ा मार्ग (मार्ग क्र. 39)
			39/1		के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम
			39/2		सैलाना में बायपास हेतु भू-अर्जन
			40		बाबत.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		33/1	मिन	0.040	
		30/1		0.850	
		30/2		0.050	
		315/2		0.050	
		315/4		0.060	
		316/1		0.060	
		316/2		0.010	
		316/3		0.020	
		317/1		0.040	
		317/2		0.060	
		318/2		0.100	
		318/3		0.340	
		321		0.340	
		319		0.160	
		320/2		0.040	
		320/3		0.100	
		314		0.300	
		432/1		0.060	
		422		0.230	
		431/1		0.150	
		423/1		0.080	
		423/2		0.220	
		424/2		0.050	
		424/3		0.100	
		425/2		0.020	
		425/3		0.100	
		427		0.260	
		428		0.030	
		476		0.200	
		599		0.210	
		600		0.160	
		601		0.020	
		602		0.010	
		606		0.020	
		11		0.010	
		14/1		0.030	
		13/1		0.010	
		17		0.040	
		21		0.070	
		22/1		0.030	
		22/2		0.120	
		23		0.090	
		योग		5.150	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			14/2 मेंसे 252 वर्गफिट		
			14/3 मेंसे 252 वर्गफिट		
			14/6 मेंसे 252 वर्गफिट		
			14/7 मेंसे 252 वर्गफिट		
			योग. . 1008 वर्गफिट		
			महायोग. . 5.160		

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उप खण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1074-भू-अर्जन-2014-प्रकरण क्र. 45-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11(1) की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 (1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	कोटड़ा	सर्वे क्रमांक 360	रकबा 0.100	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग, उज्जैन.
					बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत रतलाम-सैलाना-बांसवाड़ा मार्ग (मार्ग क्र. 39) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कोटड़ा में बायपास हेतु भू-अर्जन बाबत.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उप खण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1076-भू-अर्जन-2014-प्रकरण क्र. 46-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11(1) की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 (1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	भीलों की खेड़ी	सर्वे नं. 54	रकबा 0.160	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग, उज्जैन.
			49	0.110	
			59	0.260	
			60	0.030	
			58	0.360	
					बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत रतलाम-सैलाना-बांसवाड़ा मार्ग (मार्ग क्र. 39) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम भीलों की खेड़ी में बायपास हेतु भू-अर्जन बाबत.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			62	0.100	
			94/3	0.040	
			115	0.300	
			63/1	0.300	
			64	0.050	
			94/2	0.040	
			63/3	0.140	
			92	0.650	
			65/2	0.110	
			91/3	0.040	
			90	0.180	
			88	0.180	
			87	0.400	
			योग . .	3.450	

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उप खण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1089-भू-अर्जन-2014-प्रकरण क्र. 06-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11(1) की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 (1) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	रतलाम	धामनोद	सर्वे नं.	संभागीय प्रबंधक, म. प्र.	बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी)
			2/1	सड़क विकास निगम, उज्जैन	योजनांतर्गत रतलाम-सैलाना-
			5/1	संभाग, उज्जैन.	बांसवाड़ा मार्ग (मार्ग क्र. 39)
			6		के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम
			7		धामनोद में बायपास हेतु भू-
			8		अर्जन बाबत्.
			9		
			11/3		
			269/3		
			269/4		
			269/5		
			269/6		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		269/7	0.080		
		268/2	0.080		
		268/4	0.040		
		267/2	0.020		
		270/1	0.070		
		270/2	0.040		
		270/3	0.060		
		271	0.120		
		272	0.030		
		273/1	0.020		
		273/2	0.070		
		273/3	0.160		
		279/1	0.080		
		279/1	0.090		
		279/3	0.060		
		300/1	0.030		
		300/2	0.040		
		299/1	0.010		
		299/2	0.030		
		299/8	0.050		
		299/7	0.010		
		299/3	0.020		
		299/4	0.020		
		280	0.180		
		281	0.300		
		217	0.050		
		284/3	0.090		
		284/2	0.050		
		284/16	0.130		
		284/15	0.100		
		284/5	0.200		
		284/4	0.070		
		920/1	0.900		
		920/2	0.010		
		918/3	0.120		
		921/1	0.150		
		906	0.080		
		911	0.090		
		922	0.250		
		919/5	0.100		
		923	0.020		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			906/1	0.550	
			913/2	0.210	
			910/1	0.090	
			907/4	0.070	
			907/3	0.130	
			907/2	0.080	
			857	0.050	
			860	0.100	
			858	0.250	
			861	0.080	
			859/2	0.050	
			863/2	0.010	
			863/1	0.200	
			874/3	0.010	
			874/4	0.140	
			866/1	0.030	
			867/2	0.110	
			867/3	0.100	
			868	0.140	
			883/1	0.130	
			886/1	0.050	
			883/3	0.300	
			883/4	0.190	
			885/1	0.550	
			885/3	0.340	
			745/2	0.140	
			745/5	0.130	
			745/6	0.020	
			743/1	0.400	
			742/7	0.030	
			742/8	0.150	
			742/9	0.160	
			742/10	0.020	
			1453/1	0.150	
			1453/3	0.050	
			1452/3	0.060	
			1451	0.110	
			1419/1	0.120	
			1454/13	0.030	
			1417	0.420	
			1416/1	0.010	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1416/2	0.060		
		1416/3	0.020		
		1416/4	0.010		
		1415/1	0.010		
		1393/1/2	0.350		
		1393/1/1	0.240		
		1395/3	0.050		
		1395/5	0.020		
		1407/1	0.140		
		1437/1	0.070		
		1407/2	0.190		
		1437/2	0.050		
		1409/1	0.070		
		1408	0.030		
		1412/2	0.030		
		1409/2	0.010		
		1409/6	0.050		
		1409/4	0.110		
		1409/5	0.100		
		1440/1	0.130		
		1440/3	0.010		
		1440/4	0.010		
		1440/5	0.010		
		1440/2	0.010		
		1440/6	0.100		
		1440/6	0.010		
		1684/5	0.040		
		1684/3	0.015		
		1679/1	0.020		
		1679/2	0.010		
		1678/1	0.060		
		1677/1	0.020		
		1678/2	0.020		
		1675	0.020		
		1676	0.060		
		1673/2	0.040		
		1673/3	0.030		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1673/4	0.040	
			1673/1	0.030	
			1491/8	0.300	
			1666/1	0.030	
			1665/1	0.020	
			1665/2	0.020	
			1665/3	0.030	
			1665/4	0.030	
			1661/4	0.010	
			1661/3	0.010	
			1661/1	0.020	
			1662/3	0.060	
			1661/5	0.070	
			1661/6	0.030	
			1661/2	0.030	
			1661/7	0.030	
			1661/8	0.050	
			1778/1	0.030	
			1778/12	0.030	
			1778/15	0.030	
			1778/9	0.130	
			1778/18	0.040	
			1778/19	0.010	
			1778/24	0.020	
			1778/25	0.030	
			1778/21	0.010	
			1778/22	0.100	
			1778/23	0.010	
			1779/1	0.150	
			1779/2/2	0.120	
			1787/1	0.040	
			1504/1	0.010	
			1504/2	0.030	
			योग . .	16.065	

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 28 फरवरी 2014

क्र. 1932-क-भू.अ.वि.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—बटियागढ़
(ग) ग्राम—सकतपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.26 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
145/1	014
148	0.04
55	0.13
57/4	0.03
48/2	0.01
57/1	0.02
48/1	0.02
57/5	0.02
57/2	0.01
60	0.03
36/1	0.07
49	
50	0.04
51	
52	
46	0.08
45	
44	0.14
61	0.04
28	0.01
62/2	0.01

(1)	(2)
29	0.03
36/2	0.01
39	0.02
219	0.11
246	0.03
215	0.06
217	0.02
218	0.10
53	0.01
40/2	0.03
योग . .	1.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पिपरोधा सकतपुर मार्ग निर्माण हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1933-क-भू.अ.वि.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—बटियागढ़
(ग) ग्राम—सीगौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.22 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
398	0.06
399	0.02
400/1	0.05
400/2	0.05
404	0.02
407	0.02
योग . .	0.22

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सीगौन पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथरिया, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतू निर्माण संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 12 मार्च 2014

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) ग्राम—दमोह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—83.26 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-खण्ड क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
51	17/1क	28.80
51	17/1क	24.46
51	17/1क	16.80
51	17/1क	13.20
योग . .		<u>83.26</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दमोह जबलपुर मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह, संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पो. लिमि., जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 14 मार्च 2014

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—निवाड़ी
(ग) ग्राम—राजापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.856 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1323/1/1	0.200
1090	0.170
1093	0.001
1095	0.001
1096	0.085
1097	0.030
1098	0.050
1099	0.045
1102	0.069
1119	0.045
1120	0.032
1122	0.016
1121	0.100
754	0.030
755	0.010
756	0.100
757	0.101
761	0.023
769	0.120
767	0.080
790	0.050
791	0.010
793	0.055

(1)	(2)	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का परीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
794	0.034	
792	0.050	
795	0.012	
812	0.035	प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
822	0.040	
813	0.030	
821	0.025	
819	0.045	
823	0.020	
820	0.040	
824	0.005	
838	0.020	
839	0.070	
828	0.025	
576	0.040	
827	0.024	
826	0.040	
577	0.045	
579	0.081	
580	0.040	
607	0.012	
606	0.024	
1100	0.001	
608	0.040	
602	0.065	
598	0.060	
599	0.030	
322	0.060	
612	0.012	
321/1505	0.023	
321	0.001	
300/2	0.025	
302	0.100	
294	0.050	
300/3	0.029	
295	0.025	
301	0.050	
292	0.010	
293	0.050	
289	0.045	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
 (ख) तहसील—पृथ्वीपुर
 (ग) ग्राम—टैनीपुरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —32.815 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/538	0.080
2/540/2/1	0.320
2/539	0.324
2/540/2/2	0.413
2/540/1	0.400
2/1/1	2.800
2/1/2	1.500
2/1/3	1.028
2/1/4/1	2.667
2/1/4/2/2	0.666
2/1/4/2/1	0.667
2/2	2.023
2/3	0.382
2/3/1	1.214
2/3/2	1.214
2/1/1क	0.404
2/1/2ख	1.214
2/1/3ग	0.405
2/1/4/घ	0.202
5	6.135
7/1	0.809
7/3	0.405
9/514	1.263

योग . . . 2.856

(2) बरुआ नाला तालाब योजना की बायों नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
11	0.020	658/1	4.740
12	0.368	597/3	0.263
13	0.063	597/4	0.241
14	0.127	योग . .	<u>11.357</u>
88/544	2.347		
110/1	0.180		
110/2	0.648		
112/2	2.347		
योग . .	<u>32.815</u>		

(2) मडवाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का परीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर
(ग) ग्राम—बनयानी पूर्वी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —11.357 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
615	0.194
655/1क	0.793
655/2/5	0.800
655/2/10	0.800
654/2/3	0.410
655/2/क	1.095
655/2/9	0.800
654/2/4	0.410
645/1	0.431
645/2	0.380

टीकमगढ़, दिनांक 16 मार्च 2014

प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—निवाड़ी
(ग) ग्राम—मजरा मकारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.176 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20	0.041
12/2	0.145
19	0.008
10	0.048
12/1/1	0.050
13	0.040
14	0.061
8/1	0.081
11	0.064
54/1	0.041
52	0.061
53/2/1	0.057
54/2/1	0.011

(1)	(2)	(1)	(2)
3/2ख	0.012	364	0175
72	0.380	831/1	
56	0.036	364/1/2	0.040
302	0.080	648	0.049
604	0.012	649	0.012
641	0.110	544	0.061
642	0.024	545	0.016
684	0.016	546	0.024
687	0.041	550	0.031
154/1	0.120	551	0.095
154/2	0.016	552	0.115
150	0.100	600	0.115
153	0.200	601	0.095
159	0.028	602	0.020
165/2/1	0.320	607	0.010
165/2/2	0.040	608	0.016
270/2/क	0.030	609	0.080
271	0.200	603	0.028
295	0.061	610	0.095
309	0.031	611	0.095
310	0.115	721/2	0.008
311	0.012	722	0.061
312	0.008	725/1	0.008
296	0.160	726	0.024
300	0.020	727	0.081
305	0.016	728	0.095
306	0.008	729	0.008
307	0.061	632	0.008
605	0.012	643	0.020
606	0.016	646	0.016
682	0.024	647	0.032
683	0.028	652	0.110
685	0.012	731	0.008
688	0.072	53/2/2	0.058
303	0.004	54/2/2	0.010
304	0.028	योग . .	5.176
323	0.016	(2) आ नाला तालाब योजना की बायीं नहर के निर्माण हेतु	
336	0.008	सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.	
324	0.016	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का परीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी,	
326	0.051	भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा	
338	0.045	सकता है.	
339	0.051		
327	0.051		
328	0.008	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
364/2ख	0.050	सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 25 मार्च 2014

(1)	(2)
240	0.200
250	0.050
220/2	0.650
योग	9.853

प्र. क्र. 8-अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-2465.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
- (ख) तहसील—मुलताई
- (ग) नगर/ग्राम—खरसाली
- (घ) पटवारी हल्का नम्बर—25
- (ङ) लगभग क्षेत्रफल 9.853 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
207/4	0.230
208	0.081
218/1	0.400
218/2	1.130
219/1	0.081
219/2	0.081
220/1	0.440
220/3	0.550
221/1	1.000
221/2	0.840
221/3	0.650
222/1	0.440
222/2	0.470
223	1.010
225	1.000
239	0.550

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए भूमि की आवश्यकता है—यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1(क) लागू.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-2466.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
- (ख) तहसील—मुलताई
- (ग) नगर/ग्राम—थावरिया
- (घ) पटवारी हल्का नम्बर—27
- (ङ) लगभग क्षेत्रफल 6.710 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
191/1	3.180
191/2	1.214

(1)	(2)	(1)	(2)
191/3	0.486	260	1.546
186	1.830	266	0.405
योग	6.710	267	0.100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए भूमि की आवश्यकता है—यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.		279	0.684
(3) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1(क) लागू.		268	0.050
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.		269	0.287
(5) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.		277	0.687
		264	0.110
		252	0.304
		253	0.080
		270	0.648
		271	0.060
		274	0.308
		278	0.684
		280	2.189
		273	0.802
		272	0.200
		276	1.137
		281	0.801
		261	1.000
		योग	13.949
प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-2467.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए भूमि की आवश्यकता है—यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.	
(क) जिला—बैतूल		(3) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1(क) लागू.	
(ख) तहसील—मुलताई		(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.	
(ग) नगर/ग्राम—चैनपुर		(5) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—52			
(ङ) लगभग क्षेत्रफल 13.949 हेक्टेयर.			
खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
233/4	0.400		
259/2	0.500		
259/1	0.501		
265	0.466		

प्र. क्र. 11-अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-2468.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—हरदोली

(घ) पटवारी हल्का नम्बर—55

(ङ) लगभग क्षेत्रफल 21.057 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1	0.160
2/2	0.200
2/3	0.530
3	1.450
5	0.364
4/1	0.144
4/2	0.750
4/3	0.607
6	0.409
9	1.150
7	0.324
8	1.450
10	0.760
24	1.424
29	0.713

(1)	(2)
31/1	2.189
31/2	2.189
34/2	0.200
34/3	1.539
27/2	0.127
30/2	0.344
32/2	1.781
27/1	0.064
30/1	0.172
32/1	0.890
27/3	0.064
30/3	0.172
32/3	0.891
योग	21.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए भूमि की आवश्यकता है—यू.आई.डी.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1(क) लागू.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 07th January 2014

No.167-Confdl.-2014-II-3-1-2014.—Judicial Officers' Training and Research Institute, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting Induction Training (THIRD PHASE) for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2013 Batch from 10th March 2014 to 5th April 2014 in the Institute. Trainee Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 10th March 2014 in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.
4. The participants shall bring with them one copy each of the following, if delivered/prepared during their Third Phase Practical Exercise:—
 - (i) Judgments in Civil and Criminal Cases (preferably, contested);
 - (ii) Issues ;
 - (iii) Charge; and
 - (iv) Examination of accused;
 - (v) The notes prepared by them during Third Phase Practical Exercise; and
 - (vi) Notes prepared by them during programmes under the aegis of district Legal Services Authority, attended/conducted by them.
5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Institute by Fax (No. 0761-2628679) sufficiently in advance.
6. The Participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs, if provided by the High Court.

7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
8. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival. The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam, A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles.

9. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Institute, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules. However, it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
10. The accommodation in the Guest House of the Institute shall be available to the participants only from 3.00 p. m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m. on the succeeding day of the end of training.
11. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course, free of charge.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
VED PRAKASH, Registrar General.

Jabalpur, the 6th March 2014

No. B-126-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994), Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates Hon'ble Shri Justice Rajendra Menon, Judge of High Court of Madhya Pradesh, Principal Seat Jabalpur, as Chairman of the High Court Legal services Committee, with immediate effect.

By order and in the name of Hon'ble the
Chief Justice,
VED PRAKASH, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. D-348-दो-2-27-2013.—श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (एजाम एण्ड आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. D-472-दो-2-54-2011.—श्रीमती गिरीबाला सिंह, रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल-1), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-477-दो-2-64-2011.—श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार (एजाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. C-77-दो-2-69-2013.—डॉ. मुहम्मद शमीम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-82-दो-2-55-2013.—श्री विनोद भारद्वाज, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-124-दो-3-47-06.—श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-129-दो-2-66-11.—श्री राजीव दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-133-दो-2-66-09.—श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-138-दो-2-93-06.—सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब

(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-481-दो-2-58-09.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-484-दो-2-68-13.—श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-486-दो-2-92-06.—श्री पी. एस. कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-479-दो-15-14-90 पार्ट-सी.—श्री संजय कुमार जैन, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोक नगर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-490-दो-3-48-06.—श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2014

क्र. C-753-दो-2-4-14.—श्री अखिलेश पण्ड्या, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी

कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-755-दो-2-3-14.—श्री पी. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से दिनांक 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-766-दो-2-14-2013.—श्री विनोद कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 27 से 29 जनवरी 2014 तक तथा दिनांक 03 से 13 फरवरी 2014 तक कुल चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-757-दो-3-6-12.—श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-759-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को पात्रतानुसार दिनांक 23 दिसम्बर 2013 का एक दिन का शीतकालीन अवकाश, दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 दिसम्बर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 29 दिसम्बर 2013 के

सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-1840-दो-2-35-2006.—श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 17 से 18 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1849-दो-2-131-06.—श्री एन. के. पोरवाल, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 13 जनवरी 2012 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 28 मई 2010 से 13 जनवरी 2012 तक उन्नीस माह की अवधि के लिए पात्रतानुसार उनके अवकाश लेखा में शेष बचे 14 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 05 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 7 मार्च 2014

क्र. C-792-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 13 से 16 जनवरी 2014 तक चार

दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 17 से 21 जनवरी 2014 तक पांच दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-794-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 20 से 30 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1859-दो-2-35-2006.—श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 25 से 27 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1861-दो-2-17-2012.—श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2013 तक, दो दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01 से 09 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-1888-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 03 से 05 फरवरी 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 06 मार्च 2014

क्र. 287-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते

हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को, उनके कार्य के अतिरिक्त, छिन्दवाड़ा जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) को छिन्दवाड़ा सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2014

क्र. 289-गोपनीय-2014-दो-3-24-2014.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी रीतिका मिश्रा, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सागर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती रीतिका मिश्रा (पाठक)” पत्नी श्री सौरभ पाठक करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2014

क्र. 328-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री राजीव कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ.	झाबुआ	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर की हैसियत से सतर्कता प्रकोष्ठ में.
2.	श्री वीरेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.	उज्जैन	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर की हैसियत से न्यायिक शाखा में.
3.	श्री अब्दुल जब्बार खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट.	बालाघाट	इंदौर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., खण्डपीठ इंदौर की हैसियत से.
4.	श्री राधा किशन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा.	रीवा	ग्वालियर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से.
5.	श्री सुनील कुमार अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	भिण्ड	जबलपुर	जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर वृत्त, जबलपुर की हैसियत से श्री के. एस. ठाकुर के स्थान पर.
6.	श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया.	दतिया	ग्वालियर	जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, म. प्र., ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर हैसियत से श्री आदर्श कुमार जैन के स्थान पर.
7.	श्री वृन्दावन लाल झा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, नीमच.	नीमच	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर की हैसियत से.
8.	श्री शम्भू सिंह रघुवंशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सिवनी.	सिवनी	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल	इंदौर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., खण्डपीठ इंदौर की हैसियत से श्री अफसर जावेद खान के स्थान पर.
10.	श्री पंकज गौर, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-5, विद्युत अधिनियम, 2003 इंदौर.	इंदौर	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर की हैसियत से.
11.	श्री आनन्द कुमार तिवारी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.	धार	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर की हैसियत से.
12.	श्री सुशांत हुद्दार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महू जिला इंदौर.	महू	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर की हैसियत से.
13.	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	ग्वालियर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से श्री पी. सी. मिश्रा के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2014

क्र. 383-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री कपिल कुमार मेहता, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा.	हरदा	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2014

क्र. B-508-दो-2-41-2010.— श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 04 से 07 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 एवं 09 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-510-दो-3-47-2003.—श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 7 से 10 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-512-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 1 से 7 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में, दिनांक 8 एवं 09 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2132-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 06 से 07 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में, दिनांक 8 एवं 09 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2134-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 28 फरवरी 2014 से दिनांक 01 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में, दिनांक 27 फरवरी 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 02 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2136-दो-53/2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 25-01-2014 का एक दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2139-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 22 से 25 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 26 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2014

क्र. 330-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अरविंद मोहन सक्सेना, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) एवं रजिस्ट्रार (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	सीहोर	सीहोर	सिविल जिला, सीहोर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	श्री राज कुमार पाण्डेय, प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल में पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	अशोकनगर	अशोकनगर	सिविल जिला, अशोकनगर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	जबलपुर	बालाघाट	बालाघाट	सिविल जिला, बालाघाट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट की हैसियत से श्री ए. जे. खान के स्थान पर.
4	श्री गिरिराज किशोर शर्मा, रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	अलीराजपुर	अलीराजपुर	सिविल जिला, अलीराजपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की हैसियत से दिनांक 31 मार्च 2014 को श्री पी. एस. कुशवाह के सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.
5	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर.	ग्वालियर	उज्जैन	उज्जैन	सिविल जिला, उज्जैन. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से श्री वीरेन्द्र सिंह के स्थान पर.
6	श्री विमल कुमार जैन, सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.	छतरपुर	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	सिविल जिला, छिंदवाड़ा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7	श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर वृत्त, जबलपुर.	जबलपुर	ग्वालियर	ग्वालियर	सिविल जिला, ग्वालियर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से श्री जगदीश बाहेती के स्थान पर.
8	श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर	भिण्ड	भिण्ड	सिविल जिला, भिण्ड. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की हैसियत से श्री सुनील कुमार अवस्थी के स्थान पर.
9	श्री अशोक कुमार तिवारी, (जूनियर) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.	गुना	धार	धार	सिविल जिला, धार. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार की हैसियत से श्रीमती शिप्रा शर्मा के स्थान पर.
10	श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.	धार	नीमच	नीमच	सिविल जिला, नीमच. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच की हैसियत से श्री आर. एन. पटेल के स्थान पर.
11	श्री राम निवास पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच.	नीमच	सिवनी	सिवनी	सिविल जिला, सिवनी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी की हैसियत से श्रीमती दुर्गा डाबर के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	श्री भरत पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर	झाबुआ	झाबुआ	सिविल जिला, झाबुआ. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ की हैसियत से श्री राजीव कुमार दुबे के स्थान पर.
13	श्री अवधेश कुमार पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी.	सीधी	जबलपुर	जबलपुर	सिविल जिला, जबलपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से श्री भरत पी. माहेश्वरी के स्थान पर.
14	श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, भोपाल.	भोपाल	सीधी	सीधी	सिविल जिला, सीधी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी की हैसियत से श्री ए. के. पाण्डे के स्थान पर.
15	श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद.	होशंगाबाद	मुरैना	मुरैना	सिविल जिला, मुरैना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से श्री दिनेश कुमार नायक के स्थान पर.
16	श्री हरिनिवास वाजपेयी, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर.	इंदौर	दतिया	दतिया	सिविल जिला, दतिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया की हैसियत से श्री राजीव शर्मा के स्थान पर.
17	श्री आदर्श कुमार जैन, जिला न्यायाधीश, (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, म. प्र., ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर.	ग्वालियर	छतरपुर	छतरपुर	सिविल जिला, छतरपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से श्री विमल कुमार जैन सिंघई के स्थान पर.
18	श्री मोहम्मद शमीम, अतिरिक्त प्रधान, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.	उज्जैन	गुना	गुना	सिविल जिला, गुना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना की हैसियत से श्री अशोक कुमार तिवारी के स्थान पर.

क्र. 331-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, की अधिसूचना क्र. फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्र. फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्र. 1-2-90-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे	रायसेन	होशंगाबाद	होशंगाबाद	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री जे. के. वैद्य के स्थान पर.	होशंगाबाद
2	श्री कैलाश चन्द्र बांगर	रतलाम	झाबुआ	झाबुआ	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) के स्थान पर.	झाबुआ
3	श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, सचिव, म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	मुरैना	मुरैना	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री महेश भदकारिया के स्थान पर.	मुरैना
4	श्री शिशिरकांत चौबे, विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	श्योपुर	श्योपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	श्योपुर
5	श्री विपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय म. प्र., जबलपुर.	जबलपुर	भोपाल	भोपाल	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री व्ही. पी. एस. चौहान के स्थान पर.	भोपाल
6	श्री चन्द्रेष कुमार खरे,	लखनादौन	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री एस. के. तुरकर के स्थान पर.	नरसिंहपुर
7	श्री रूपेश चंद्र वार्ष्णेय	भिण्ड	नीमच	नीमच	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री व्ही. एल. झा के स्थान पर.	नीमच
8	श्री केशव सिंह तोमर	सुंसनेर	सिवनी	सिवनी	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री एस. एस. रघुवंशी के स्थान पर.	सिवनी

शुद्धि-पत्र

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2014

क्र. 348-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014(भाग-ए).—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 331/गोपनीय/2014/दो-2-1/2014 (भाग-ए), दिनांक 13-03-2014 की सारणी के स्तम्भ क्रमांक (1) के सरल क्रमांक 3 के समक्ष उल्लेखित प्रविष्टि, जहां तक इसका संबंध श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, सचिव, म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की पदस्थापना, पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री महेश भदकारिया के स्थान पर, से है, एतद्वारा विलोपित की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2014

क्र. 377-गोपनीय-2014-दो-2-33-57 (भाग-11).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, के आदेश फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19 मार्च, 2014 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्तम्भ (4) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने [सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट दिनांक तक] अथवा अन्य आदेश जो भी पहले हो, पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कुमारी प्रतिभा रत्नपारखी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	31-12-2014	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय नीमच की हैसियत से नवगठित न्यायालय में.
2	श्री उल्हास बापट, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	28-12-2015	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय मंदसौर की हैसियत से नवगठित न्यायालय में.

नोट:—उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

क्र. 380-गोपनीय-2014-दो-2-33-57 (भाग-11).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मार्च, 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु, उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 4-ए-2002-21-ब(एक), दिनांक 07-10 जनवरी, 2014 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्तम्भ (4) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने [सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट दिनांक तक] अथवा अन्य आदेश जो भी पहले हो, पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री श्याम कुमार मण्डलोई, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	11-03-2015	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय रीवा की हैसियत से श्री राधाकिशन गुप्ता के स्थान पर.

नोट:—उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च 2014

क्र. बी-463-तीन-6-2-2014.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

सारणी

क्र.	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राम मनोहर सिंह दांगी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	दमोह	दमोह
2.	श्री मुकेश रावत, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	विदिशा	विदिशा
3.	श्री सुनील दंडोतिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	विदिशा	विदिशा
4.	कु. अनीता खजुरिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	गंजबासौदा	विदिशा
5.	श्री संतोष सैनी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	गंजबासौदा	विदिशा
6.	श्री जयप्रताप चिढार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सिरोंज	विदिशा
7.	श्री सुशील कुमार गौतम, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	रीवा	रीवा
8.	श्री उपदेश राठौर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	रीवा	रीवा
9.	श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	छतरपुर	छतरपुर
10.	श्री धीरज कुमार गंधर्व, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	बिजावर	छतरपुर
11.	श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	झाबुआ	झाबुआ
12.	श्री राकेश जामरा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	थांदला	झाबुआ

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी. ई.).

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. 16-स्था. सैट-2014.—श्री देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर को दिनांक 09-12-2013 से 13-12-2013 तक कुल 05 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था। उक्त अवकाश से लौटाने पर श्री देवेश चतुर्वेदी, को अस्थायी रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर में पुनः पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चतुर्वेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) के पद पर कार्य करते रहते।

रजिस्ट्रार महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.